





# एक माह में नए मतदाता पंजीकरण के 4.8 लाख फॉर्म जमा : सीईओ एलिस वाज ने कहा, अंतिम सूची 6 जनवरी को होगी जारी

● आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी

पार्यनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से कथित रूप से नाम हटाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सोमवार को कहा कि 28 नवंबर से महाने भर तक संक्षिप्त पुनरीकाश अधिकार के दौरान चुनाव कार्यालय को नए मतदाता पंजीकरण के लिए करीब 4.8 लाख आवेदन फॉर्म मिले हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 82,450 और मतदाता ओं के विवरण में सुधार के लिए 1,71,385 आवेदन प्राप्त हुए हैं। संशोधन के बाद इसे 6 जनवरी, 2025 को प्रकाशित किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए झूटे इत्तेमाल कर सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा कि वह उन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता ओं के नाम हटाने के लिए, आवेदन जमा कर रही है। दूसरी ओर, भाजपा ने आरोप कराया है कि आप अवैध रोटिंग और बांगलादेशी प्रवासियों के मतदाता पहचान पत्र बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि पार्टी उन्हें वोट बैंक के रूप में इत्तेमाल कर सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूचीयों का विशेष संक्षिप्त पुनरीकाश कार्य संक्रियता से कर रहा है।

● भाजपा के दबाव में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की करनी पड़ी घोषणा : सचदेवा

पार्यनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अविवाद के जरीवाल लगातार लोक लघावने वाले कर रहे हैं। इसकी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के चंद्रपर्णी के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रथियों के लिए उपर्युक्त प्रधारीयों को जारी किया गया।

इस पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि प्रदेश भाजपा और उसके पुजारी प्रोक्रेट के लगातार 2 साल से अधिक वर्ष तक उन्हें अंदोलन के दबाव में आवेदन कर रहे हैं। इसकी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के चंद्रपर्णी के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रथियों के लिए उपर्युक्त प्रधारीयों को जारी किया गया।

● भाजपा नेता बोले, केजरीवाल ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए योजना का किया ऐलान

पार्यनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

अदलत को गुमराह करने के लिए यह पुजारी ग्रंथी योजना घोषित की है। सचदेवा ने कहा कि महिलाएं हों, पुजारी एवं ग्रंथी हों सबके पास आज आप नेता से एक सवाल हो जाएगा कि आपकी पंजाबी का सरकार ऐसा कोई वेतन नहीं दे रही है।

वीरेंद्र सचदेवा ने रुक्मणी सिंह और यासिर जिलानी की मौजूदी में सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल अब तक उनकी वाली को बोला रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में लोगों एक याचिका के चलते वह समझ रहे थे की उनको मौलिवियों का वेतन भत्ता बंद करना चाहिए, तो केजरीवाल ने कोर्ट को गुमराह करने की बात भाजपा को घोषणा की है।

● निवासियों के लिए सुरक्षित कानून-व्यवस्था के उद्देश्य से विशेष अधिकार शुरू किया गया है : डीसीपी

पार्यनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी उत्तरी दिल्ली जिले में जब्यन्य अपराधों के आरोपी 52 किलोमीटर में से 11 पर वर्याचों की तरह केस चलेगा। पुलिस ने कहा कि जिले के निवासियों के लिए सुरक्षित कानून-व्यवस्था का माहिल बनाने के उद्देश्य से विशेष अधिकार शुरू किया गया है।

पुलिस उपायकरण निधन बलसन ने कहा, विशेष अधिकार के कुल 11 आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। हामे 11 आवेदनों के लिए मंजूरी मिल गई है।

डीसीपी बलसन ने विशेष पुलिस थानों से प्राप्त सूचीना के आधार पर उक्त जानकारी दी।

● मुख्यमंत्री बोली, परिवहन विभाग ने डीटीसी, लैलस्टर बसों के चालाकों वर्किंग ट्रॉपरों को आदेश जारी किया

पार्यनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि सरकारी बसों (डीटीसी और लैलस्टर) के चालाक और कंडवर्टर यदि निर्धारित बस स्टॉप पर इंतराव कर रही महिला यात्रियों को बैठाए बिना अपेक्षा पाए गए, तो उन्हें निर्धारित कर दिया जाएगा।

आतिशी ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में महिलाओं से कहा कि वे ऐसी बसों की तरीके खींचकारी के बिल्ली बिल्ली बालक और कंडवर्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। परिवहन विभाग ने डीटीसी और लैलस्टर बसों के सभी चालाक और कंडवर्टरों को आदेश जारी किया है कि वे बस स्टॉप से

महिला यात्रियों को बैठाना सुनिश्चित करें। अगर बस महिला यात्रियों को निलंबित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लैलस्टर बसों का स्टॉप पर उपयोग करें। अगर यात्रियों के लिए लैलस्टर बसों का स्टॉप पर उपयोग करें। अगर यात्रियों के लिए लैलस्टर बसों का स्टॉप पर उपयोग करें। अगर यात्रियों के लिए लैलस्टर बसों का स्टॉप पर उपयोग करें। अगर यात्रियों के लिए लैलस्टर बसों का स्टॉप पर उपयोग करें। अगर यात्रियों के लिए लैलस्टर बसों का स्टॉप पर उपयोग करें। अगर यात्रियों के लिए लैलस्टर बसों का स्टॉप पर उपयोग करें।

प्रसवातामें सौएम आतिशी

</



# 'तीन दिन चंडीगढ़ पार्टी कार्यालय में बैठेंगे मंत्री'

प्रदेशभर से आने वाले कार्यकर्ताओं व जनता की सुनेंगे समस्याएं, प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने किया ऐलान

● 12 जनवरी को होगा बूथ और मंडल अध्यक्षों का घटना

● 41 लाख लोग बने भाजपा के सदस्य, जल्द पूरा होगा 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य

पार्यनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़



चंडीगढ़ में प्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली व अन्य नेता।

पार्टी के संगठन चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कहा कि एक जनवरी से 5 जनवरी तक सभी बूथों पर समितियां बनाने का अभियान चलेगा और 6 जनवरी से 12 जनवरी तक मंडल अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इससे लोगों को होने वाली परेंजां हमें समाप्त हो जाएंगी।

बड़ौली ने कहा कि अब तक भाजपा के 41 लाख सदस्य बन चुके हैं। सदस्य बनाने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से हुई है और पार्टी

के पास सभी कार्यकर्ताओं का डाटा है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक 31 हजार से ज्यादा सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। बड़ौली ने कहा कि जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी तब तक साधारण सदस्य भी बनते रहेंगे और विकास ने 100 हजार 62 रुपए के प्रदेश प्रभारी के लिए चुनाव की टीम गठित कर ली है। इसी तरह से जिलों और मंडलों की टीम भी बनती है। बड़ौली ने कहा कि प्रदेश के 4390 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने 50 हजार सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 31 हजार बन चुके हैं और जल्द ही बाकी के 19 हजार सक्रिय सदस्य भी बना के छात्र राजकीय विद्यालय सैक्टर-13, गुरुकेश्वर में जिला स्तरीय जूनियर रेडक्रॉस ट्रेनिंग केंद्र का आयोजन किया गया जिसमें गुरुकुल के छात्र अध्यक्ष आर्थ, चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया। कैम्प में दौरान 'मोबाइल का दुरुस्योग' विषय पर हुई भाषण प्रतियोगिता में शाश्वत आर्थ और विकामादित्य ने फैसला किया गया। जिला अध्यक्ष के साथ तीन सदस्यों की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जो चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखेंगी। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री डा. अर्चना गुरु, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूर्णिमा, भाजपा प्रदेश प्रभारी के 34 संघर्ष आहुजा, भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय आहुजा, भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नवीन गर्ग मौजूद रहे।

भास्तव को चंडीगढ़ में प्रकारों से बातचीत में मोहन लाल बड़ौली ने

गुरुकुल के शाश्वत का भाषण रहा जिले में प्रथम

कुरुक्षेत्र।

गुरुकुल कुरुक्षेत्र के छात्र

शाश्वत आर्थ के हिन्दौ भाषण

को जिला में प्रथम चुना गया है जिसके

लिए उसे प्रमाण-पत्र एवं स्मृति-

चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

निदेशक ड्रिंगिंडियर डा.

प्रवीन कुमार

एवं प्राचार्य सूबे प्रताप ने इस

उपलब्धि पर शक्ति सहित शिक्षक

गुरुकुल सिंह से रवि कुमार को बाहर

आर्थिक और विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि

पहले प्रदेश में 313 मंडल थे जोकि

अब बढ़ाकर 376 कर दिए हैं। वृथ

की रचना के बाद 6 जनवरी से 12

जनवरी तक मंडल अध्यक्ष बनाने की

प्रक्रिया चलेगी। भाजपा अध्यक्ष ने

कहा कि पार्टी ने 50 हजार सक्रिय

सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 31

हजार बन चुके हैं और जल्द ही बाकी

के 19 हजार सक्रिय सदस्य भी बना

के छात्र आर्थ आर्थ, चित्रांश,

अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया। कैम्प में

लटकते शव को देखकर

कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस

पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों के

हवाले कर दिया है। मृतक के पास

परिजनों के हवाले कर दिया है।

जानवर को चंडीगढ़ में प्रकारों

से बातचीत में मोहन लाल बड़ौली ने

कहा कि हमारी पार्टी को जे रचना

और योजना है तो कहा कि हमारी

प्रदेश अध्यक्ष आर्थ आर्थ, चित्रांश,

अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित्य ने भाग लिया।

जिला अध्यक्ष के बाद आर्थ आर्थ,

चित्रांश, अधिकारी, मासी प्रताप और विकामादित













